

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन 1 से 7 मई तक नैशनल यूथ वीक का जशन वर्चुअली मना रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 अप्रैल, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 1 से 7 मई तक वर्चुअल (आभासी) कार्यक्रमों के साथ नैशनल यूथ वीक (National Youth Week) का जशन मना रही है। नैशनल यूथ वीक, हमारी कम्युनिटी में युवाओं और उनकी सक्रिय भागीदारी का जशन मनाने के लिए समर्पित है।

युवाओं को, 1 मई को दोपहर बाद 1 बजे से शाम 5 बजे तक शुरुआती कार्यक्रम (Kick Off Event) सहित, पूरे सप्ताह लगभग 40 मुफ्त वर्चुअल कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ और हमारे साझेदारों के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लीडरशिप, मानसिक स्वास्थ्य, एंटरप्रीनियरशिप, नागरिक भागीदारी आदि के बारे में प्रेरणादायक स्पीकरों को सुनें और उनसे जुड़ें।

वर्कआउट क्लासेज, स्व-देखभाल वर्कशॉप और मानसिक स्वास्थ्य तथा युवा हिमायत के बारे में चर्चाओं सहित, वर्चुअल सेशनो के लिए रजिस्टर करें। शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) के एक्सेसिंग पोस्ट-सेकंडरी एजुकेशन (Accessing Post-Secondary Education) कार्यक्रम से जुड़ें; पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसिज (Punjabi Community Health Services) की हायरिंग इवेंट (Hiring Event) में हिस्सा लें और फूड नेटवर्क कैनैडा (Food Network Canada) के रेसिपी टू रिचेस (Recipe to Riches) के विजेता, शेफ रिक मथारू (Rick Matharu) के साथ पकौड़े बनाना सीखें।

इस सप्ताह पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल हैं, 1 मई को शुरुआती कार्यक्रम, 3 मई को वी प्ले टू – गर्ल्स एंड वूमन इन स्पोर्ट्स लीडरशिप कॉन्फरेंस (We Play Too - Girls and Women in Sports Leadership Conference), 7 मई को वर्चुअल डांस (Virtual Dance)। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को एक मुफ्त मीडियम, एक-टॉपिंग वाले Domino's पिज्जा के लिए कूपन कोड मिलेगा। साथ ही, शानदार इनाम जीतने का अवसर मिलेगा, जैसे ई.बी. गेम्स (EB Games) गिफ्ट कार्ड, निनटेंडो स्विच (Nintendo Switch) कोन्सोल इनाम पैक और Domino's पिज्जा इनाम पैक। Domino's के इनाम, केवल ब्रैम्पटन के स्थानों पर ही रिडीम किए जा सकते हैं।

प्रत्येक कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है! [पूरे शेड्यूल के लिए और इन मुफ्त सेशनो हेतु रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें \(Click here for the full schedule and to register for these free sessions\)।](#)

इससे न चूकें! Spotify पर हमारे नैशनल यूथ वीक की प्लेलिस्ट के साथ डांस करें, झूमें और जशन मनाएं। [सुनने के लिए यहां क्लिक करें \(Click here to listen\)।](#)

### ब्रैम्पटन फायर का वर्चुअल फायर स्टेशन टूर

क्या आपने कभी सोचा है कि फायर स्टेशन अंदर से कैसा है? वीरवार, 6 मई, 2021 को शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक, वर्चुअल फायर स्टेशन टूर के लिए, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) से जुड़ें। ब्रैम्पटन के फायरफाइटर, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टूल्स और वह साजो-सामान दिखाते हुए आपको शानदार टूर करवाएंगे, जो उन्हें

एमरजेंसी स्थितियों में काम करते हुए सुरक्षित रखते हैं! सवाल-जवाब के सेशन के लिए अपने सवाल लेकर आएं। [यहां \(here\)](#) रजिस्टर करें।

### द रोज़ में सेंटर स्टेज कोन्सर्वटोरी

पूरे नैशनल यूथ वीक के दौरान, द रोज़ ब्रैम्पटन (The Rose Brampton), 2020-2021 सेंटर स्टेज कोन्सर्वटोरी (Centre Stage Conservatory) के भागीदारों को सोशल मीडिया पर उजागर करेगा। यह ब्रैम्पटन के युवा कलाकारों के लिए एक ट्रेनिंग और पेशेवर विकास संबंधी प्रोग्राम है। इस वसंत भागीदार, अपनी अंतिम परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)।

### युवाओं के लिए Instagram लाइव चैट

नैशनल यूथ वीक के जशन में, 30 अप्रैल को शाम 6 बजे, आगामी वर्चुअल गतिविधियों के बारे में जानने, कोविड-19 (COVID-19) संबंधी नई पाबंदियों के बारे में चर्चा करने के लिए, मेयर पैट्रिक ब्राउन, सिटी काउंसलर शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams) और सिटी काउंसलर हरकीरत सिंह (Harkirat Singh) से जुड़ें! बातचीत, मेयर ब्राउन के अकाउंट, [@patrickbrownont](#) पर आयोजित की जाएगी।

### कोविड-19 यूथ स्पॉर्ट टास्क फोर्स

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 यूथ स्पॉर्ट टास्क फोर्स (COVID-19 Youth Support Task Force) की सह-मेजबानी, सिटी काउंसलर, शार्मेन विलियम्स और सिटी काउंसलर, हरकीरत सिंह द्वारा की जा रही है। टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन के 14 से 29 वर्ष के युवाओं की आवश्यकताओं को सहयोग करती है। यह युवाओं को सेवा देने वाले 40 से अधिक लोकल संगठनों से संपर्क करते हुए, उन्हें घर में ऑनलाइन गतिविधियों में व्यस्त रखते हुए, कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधन और सहयोग प्रदान करती है। [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें \(Click here for more information\)](#)।

### यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी कम्युनिटी की पदवी

2020 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, प्ले वर्क्स (Play Works) द्वारा प्लैटिनम स्टेटस यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी (Platinum Status Youth Friendly Community) की पदवी मिली थी। यह पार्क्स एंड रेक्रिएशन ओन्टारियो (Parks and Recreation Ontario) द्वारा हिमायत वाला प्रोग्राम है। यह तीसरी बार था, जब सिटी को युवाओं के लिए वृद्धि और विकास के अवसरों के लिए, इसकी शानदार प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई थी। सिटी, 2020 में टॉप प्लैटिनम पदवी प्राप्त करने वाले तीन समुदायों में से एक है। अधिक जानने के लिए [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)।

### हवाले

“हम 1 से 7 मई तक नैशनल यूथ वीक के लिए ब्रैम्पटन के युवाओं का जशन मनाने को लेकर उत्साहित हैं! ब्रैम्पटन, कैनडा में सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक है, जो 14 से 29 वर्ष के 130,000 से अधिक युवाओं का घर है। मैं सभी युवाओं को सलाह देता हूं कि वे सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के लिए रजिस्टर करें और 30 अप्रैल को काउंसलर विलियम्स और काउंसलर सिंह के साथ मेरी Instagram लाइव चैट से जुड़ें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“नैशनल यूथ वीक की शुभकामनाएं! ब्रैम्पटन के युवा, कल के हमारे लीडर हैं। हम ऐसे कार्यक्रम और अवसर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सफल होने में उनकी मदद करेंगे। 1 से 7 मई को सिटी और इसके कम्युनिटी साझेदारों की ओर से आपके लिए प्रायोजित किए जाने वाले एक, दो, दस या लगभग सभी 40 कार्यक्रमों में शामिल हों!”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन स्वस्थ और सुरक्षित शहर है। साथ ही, यह युवाओं के लिए सीखने और आगे बढ़ने के लिए, अवसरों का शहर है। हमारे युवा, हमारी कम्युनिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारा उद्देश्य है, उनकी नागरिक भागीदारी को प्रेरित करना, लीडरशिप अवसर बढ़ाना और उनके कल्याण में वृद्धि करना। पूरे सप्ताह के नैशनल यूथ वीक के कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए रजिस्टर अवश्य करें।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज; को-लीड, यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, 1 से 7 मई तक, नैशनल यूथ वीक के लिए जोशीले वर्चुअल कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ ब्रैम्पटन के युवाओं का जशन मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि हम इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से एकत्र नहीं हो सकते, इसलिए हमारी टीम ने इस सप्ताह के लिए कई रोमांचक कार्यक्रम पेश किए हैं। मैं हर किसी को साइन अप करने और मज़ेदार गतिविधियों में शामिल होने की सलाह देता हूँ!”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)